



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 358]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 17, 1982/श्रावण 26, 1904

No. 358]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 17, 1982/SRAVANA 26, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 1982

का०अ० 590 (अ) — भूमिगत रेलवे (सकर्म निर्माण) अधिनियम,
[1978 की धारा 21 (1) (ख) के अन्तर्गत अधिसूचनाएं]

यह केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक है कि कलकत्ता में भूमिगत (मेट्रो) रेलवे के निर्माण के लिए निम्नलिखित अनुसूची में वर्णित सभी इमारतों का, जो भूमिगत संरेखण के ऊपर अथवा उसके किसी भी तरफ 20 मीटर के भीतर स्थित हों, अस्थायी रूप से खाली करने का निर्देश दिया जाय, अतः एतद्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि नीचे दी गयी अनुसूची में निर्दिष्ट परिसरों में रहने वाले व्यक्ति अपने परिवार और आश्रितों सहित जो इन परिसरों में रह रहे हों, साथ ही यदि कोई बल संपत्ति अथवा पशु, जो उनकी अभिरक्षा, नियंत्रण या कब्जे में हो तो उनके सहित, उक्त इमारत को खाली कर दें।

प्रभावित व्यक्तियों को ऐसा अस्थायी वैकल्पिक स्थान, जिसे केन्द्रीय सरकार उपयुक्त समझे, निशुल्क उपलब्ध कराने की अथवा एक ऐसी धनराशि का, जो सरकार की राय में वैकल्पिक स्थान को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है, भुगतान करने की व्यवस्था की गयी है।

प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को कार्यकारी इनामियर, सी एस-4, भूमिगत रेलवे से जो इस प्रयोजन के लिए महाप्रबन्धना, भूमिगत रेलवे के प्राधिकृत

प्रतिनिधि हैं, सूचना प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर यह निष्क्रमण कर देना चाहिए—

(क) भूमिगत रेलवे कलकत्ता में अस्थायी तौर पर कोई निर्दिष्ट अस्थायी वैकल्पिक स्थान निशुल्क ग्रहण करने के लिए, अथवा

(ख) अस्थायी वैकल्पिक स्थान खरीदने के लिए भूमिगत रेलवे कलकत्ता में निर्दिष्ट धनराशि, जो केन्द्रीय सरकार की राय में पर्याप्त हो, प्राप्त करने के लिए अपने आप को पेश करने के लिए।

अनुसूची

इमारत	परिसर सं०	प्रभावित व्यक्तियों का नाम	निर्देशन
1	2	3	4
18	16ए, धीरव मुखर्जी रोड, कलकत्ता	1. श्री धार०एन० निवारी 2. श्री कमल कुं० राय 3. श्री अक्कोरी राय 4. श्री देवव्रत रासगुप्ता	प्रत्येक मामले में निष्क्रमण (बाली करने) की वास्तविक तारीख से लगभग 6 महानों की अवधि के लिए सभी बल संपत्ति और/अथवा सभी पशुओं सहित सभी व्यक्तियों का ऊपर बताये अनुसार निष्क्रमण।

[का०सं० 81/एम०टी०पी०/सी/एल०ए०/99]

हिम्मत सिंह, सचिव, रेलवे बोर्ड
पदेन संयुक्त सचिव भारत सरकार, रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th August, 1982

S.O. 590(E).—Notifications under Section 21(1)(b) of the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978.

Whereas the Central Government is of the opinion that for facilitating the construction of Metro Railway at Calcutta, it is necessary to direct temporary evacuation of all buildings, described in the schedule below, which are above or within 20 metres on either side of the metro alignment, it is hereby directed that the persons, living in the premises mentioned in the schedule below along with their family and dependents, as residing in these premises, together with any moveable property or animal that may be in their custody, control, or possession shall evacuate the said building.

Arrangement has been made to provide the affected persons with such temporary alternative accommodation, free of cost, as considered suitable by the Central Government or to pay an amount which in its opinion is sufficient, to procure a temporary alternative accommodation.

Such evacuation shall be done by every affected person within thirty days from the date of receipt of intimation sent to him by the Executive Engineer CS-4, Metro Railway, who

is the authorised representative of the General Manager, Metro Railway for this purpose—

- (a) for taking over temporarily a specific temporary alternative accommodation free of cost from the Metro Railway, Calcutta, or
- (b) for presenting himself to receive from the Metro Railway, Calcutta, a specific amount, which in the opinion of Central Government is sufficient, to procure a temporary alternative accommodation.

SCHEDULE

Buildi g/Premises No.	Name of the affected persons	Direction
1	2	3
18 16A, Bhairab Mukherjee Lane, Calcutta.	1. Sri R.K. Tiwari 2. Sri Kama Kr. Roy 3. Sri Akkori Roy 4. Sri Debabrata Dasgupta	Evacuation of all persons together with any movable property and/or any animal as described above for a period of six month approximately from the actual date of evacuation in each individual case.

[Case No. 81/MTP/C/LA/99]
HIMMAT SINGH, Secy. Railway Board.
Ex-officio Joint Secretary to
the Government of India
Ministry of Railway.